

**!! विज्ञापनदाता ध्यान दें !!**

**अब एम्प्लॉयमेंट न्यूज़/रोज़गार समाचार के सभी पृष्ठ पूर्णतः रंगीन हो गये हैं  
विज्ञापनदाताओं से अनुरोध है कि वे रोजगार रिक्तियों का पूर्ण विवरण दें  
छोटे विज्ञापनों के लिए न्यूनतम आकार 200 वर्ग सें.मी. किया जा रहा है**

एम्प्लॉयमेंट न्यूज़/रोज़गार समाचार का यह निरंतर प्रयास है कि विभिन्न रोजगार अवसरों के बारे में अधिकतम जानकारी प्रदान करके छात्रों और युवाओं की कैरिअर आवश्यकताओं को पूरा किया जाए. लक्षित जनसंख्या में सुदूरवर्ती और दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले युवा शामिल हैं, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या हो सकती है और उनके लिए बार-बार इंटरनेट की उचित पहुंच संभव नहीं हो सकती है.

**1. विज्ञापनदाताओं को सूचित किया जाता है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़/रोज़गार समाचार में प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापनों का न्यूनतम आकार बढ़ाकर 200 वर्ग सें.मी. किया जा रहा है.** यद्यपि, लघु सूचनाओं जैसे कि निरस्तीकरण सूचनाओं, शुद्धिपत्र, परिशिष्ट, परिणामों की घोषणा के लिए न्यूनतम आकार, पहले की तरह 100 वर्ग सें.मी. ही जारी रहेगा.

**2. विज्ञापनदाताओं को यह भी सूचित किया जाता है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़/रोज़गार समाचार के सभी पृष्ठ रंगीन गये हैं.** इससे पहले, प्रत्येक अंक के केवल चार रंगीन पृष्ठ होते थे. सभी विज्ञापनदाताए जो अपने विज्ञापन पूरी तरह रंगीन छपवाना चाहते हैंए अब एम्प्लॉयमेंट न्यूज़/रोज़गार समाचार में शामिल करने हेतु ऐसे पूर्णतः डिज़ाइन किए हुए विज्ञापन भेज सकते हैं. भुगतान विनिर्दिष्ट बीओसी (डीएवीपी) दरों के आधार पर होगा.

**3. अतः एम्प्लॉयमेंट न्यूज़/रोज़गार समाचार की विज्ञापनदाताओं से अपील है कि वे अपने विज्ञापनों में अभ्यर्थियों के लाभ के लिए आवेदन-पत्र के प्रोफार्मा सहित भर्ती, प्रशिक्षण, प्रवेश प्रक्रिया का पूर्ण विवरण दें.** एम्प्लॉयमेंट न्यूज़/रोज़गार समाचार में प्रकाशित होने वाले रोजगार विज्ञापनों के लिए कोई अधिकतम आकार सीमा नहीं है. 950 वर्ग सें.मी. आकार का पूरे पृष्ठ का विज्ञापन दिए जाने अथवा एक पृष्ठ से अधिक में जाने वाला विज्ञापन विभिन्न रोजगार रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत मददगार होगा.

**4. विज्ञापन की लघु सूचना देने वाले विज्ञापनदाता यह सुनिश्चित करें कि इसमें निम्नलिखित बुनियादी सूचना अवश्य होनी चाहिए-**

- i. पद का नाम
- ii. रिक्तियों की संख्या
- iii. श्रेणी वर्गीकरण (सामान्य, अजा/अजजा/अपिव/शावि/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग आदि)
- iv. वेतन के विवरण
- v. अनिवार्य अर्हता
- vi. अपेक्षित अनुभव, यदि कोई है
- vii. आयु सीमा
- viii. आवेदन करने की अंतिम तिथि
- ix. पूर्ण विवरण के लिए वेबसाइट लिंक